



भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Management
(आबंटन अनुभाग/Allotment Section)



दूसरा तल , उत्तर स्कंध/2nd floor, North Wing,
विक्रम साराभाई भवन/Vikram Sarabhai Bhavan,

अणुशक्तिनगर/Anushaktinagar,
मुंबई 400 094/ Mumbai 400 094

No.1/19/2019-20/EI/830

दिनांक/Date: 20.03.2020

परिपत्र CIRCULAR

विषय : आबंटन अनुसूची - मार्च 2020 का स्थगन |

Sub : Postponement of Allotment Schedule - March 2020.

निदेशालय के दिनांकित 16.3.2020 के संप्रेषण संख्या 1/19/2019-20/ EI/814 द्वारा 27 मार्च 2020 (0000 बजे) से 31 मार्च 2020 (2359 बजे) तक मार्च 2020 हेतु विभिन्न श्रेणियों के आवासीय आबंटन के लिए अनुसूची को सूचित किया गया है। This Directorate vide communication no. 1/19/2019-20/EI/814 dated 16.03.2020, has intimated a schedule for allotment of accommodations in various categories for March 2020 from 27th March 2020 (0000 hrs) to 31st March 2020 (2359 hrs).

हालांकि दिनांकित 19.03.2020 के डीओपीटी के परिपत्र संख्या 16/6/2020/एससीएस/3901 को पड़वि द्वारा पृष्ठांकित कर सरकारी कार्यालयों में ग्रुप बी व सी स्टाफ को एकान्तर सप्ताह पर 50% उपस्थिति का निदेश दिया है, इस निदेशालय के सक्षम प्राधिकारी ने आगामी आदेशों तक मार्च 2020 हेतु आबंटन अनुसूची को स्थगित करने का निर्णय लिया है। However, in wake of the DoPT's Circular endorsed by DAE vide no. 16/6/2020-SCS/3901 dated 19.03.2020 directing 50% attendance of Group B and Group C staff on alternate week in the government offices, the Competent Authority in this Directorate has decided to **postpone** the allotment schedule for March 2020 till further notice.

यह सभी संबंधितों की सूचना के लिए है। This is for information of all concerned.


(बी.पी.जोशी B. P. Joshi)

मुख्य प्रशासन अधिकारी एवं संपदा अधिकारी Chief Administrative Officer
& Estate Officer

प्रति To,

मुंबई स्थित सभी संघटक यूनिटों /सचिवालय - संबंधित यूनिटों कर्मचारियों में व्यापक प्रचार हेतु
के प्रशासनिक प्रधान

The Administrative Head of all the - For wide circulation among the employees
Constituent Units/ Secretariat - of the respective units
in Mumbai

प्रतिलिपि Copy to: 1.अवर सचिव, एसयूएस, पड़वि Under Secretary, SUS, DAE

2.अवर सचिव, प्रशासन, पड़वि Under Secretary, Administration, DAE

1. Director (Admn.), DAE.
2. Chief Administrative Officer (P), BARC.
3. Chief Administrative Officer, NRB.
4. Chief Administrative Officer, HWB.
5. Chief Administrative Officer, AEES.
6. Chief Administrative Officer, DPS.
7. Chief Administrative Officer, AERB.
8. Chief Administrative Officer, BRIT.
9. Chief Administrative Officer, HBNI.
10. Sr. Manager, (P&IR), NPCIL.
11. Centre-Director, UGC-DAE CSR.
12. Registrar, UM-DAE CEBS
13. Administrative Officer, DCSEM.
14. All Section Heads in DCSEM.

- Copy to :
1. Joint Secretary (A&A), DAE
 2. Vice Chairman, AERB.
 3. Chairman, AEES.
 4. Chief Executive, HWB.
 5. Chief Executive, NRB.
 6. Director, DCSEM
 7. Director, DPS.
 8. Controller, BARC.
 9. Chief Executive, BRIT.
 10. Director (P), NPCIL.
 11. CAO(Admn.), BARC
 12. Registrar, UM-DAE CEBS
 13. CPE (M), DCSEM

for kind information.

- CC:
1. General Secretary, AEW&SU, Mumbai.
 2. Secretary, Heavy Water Staff Association, HWB, Mumbai.
 3. Secretary, AIAE(DPS) Staff Association, DPS, CSU, Mumbai.
 4. Secretary, DAE Secretariat Staff Association, DAE.
 5. Secretary, DPS, (DAE) Employees Association, DPS, VSB.
 6. Secretary, DCSEM Staff Association, DCSEM, Mumbai.
 7. Secretary, Atomic Energy Central Schools/Jr. Colleges Non-Teaching Staff Association, AEES, Mumbai.
 8. General Secretary, NPC Officers Association, Mumbai
 9. General Secretary, NPC Employees Union, Mumbai.
 10. General Secretary, Scientific Assistants Association, BARC, Mumbai.

- CC: 1. All Notice Boards.
2. All users of DCSEM Zimbra.